

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 657 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2019 — आश्विन 13, शक 1941

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

अधिसूचना

क्रमांक 2-14/2013/10-1/वन. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ वन (राजपत्रित) सेवा, भर्ती नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 11 के उप-नियम (11) की सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“शारीरिक मापदण्ड (न्यूनतम)

	पुरुष	महिला
(एक) ऊंचाई (अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग)	163 से. मी.	150 से. मी.
(दो) ऊंचाई (अनुसूचित जनजाति)	152 से. मी.	145 से. मी.
(तीन) सीना	79 से. मी.	74 से. मी.
(चार) न्यूनतम सीना विस्तार	5 से. मी.	5 से. मी.
(पांच) शारीरिक क्षमता परीक्षण, चार घण्टे के भीतर पैदल चलना	26 कि. मी.	16 कि. मी.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयसिंह म्हस्के, सचिव.

Atal Nagar, the 4th October 2019

## NOTIFICATION

No. F 2-14/2013/10-1/Forest. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in Chhattisgarh Forest (Gazetted) Services, Recruitment Rules 2015, namely :-

## AMENDMENT

In the said rules,-

For table of sub-rule (11) of rule 11, the following shall be substituted, namely :-

## “PHYSICAL PARAMETERS (MINIMUM)

	Male	Female
(i) Height (unreserved, Scheduled caste and other backward classes)	163 cms.	150 cms.
(ii) Height (Scheduled Tribes)	152 cms.	145 cms.
(iii) Chest	79 cms.	74 cms.
(iv) Minimum Chest expansion	5 cms.	5 cms.
(v) Physical caliber test walking within Four hours	26 Kms.	16 Kms.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
JAISING MHASKEY, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

## अधिसूचना

क्रमांक 2-14/2013/10-1/वन. — छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा नियम, 2014 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

## संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 03 (क) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-

“(3)(क) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी) एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता तथा द्वितीय प्रश्न पत्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि विज्ञान एवं वानिकी विज्ञान के होंगे, द्वितीय चरण में साक्षात्कार सम्पन्न होगा.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयसिंह म्हास्के, सचिव.

Atal Nagar, the 4th October 2019

NOTIFICATION

No. F 2-14/2013/10-1/Forest. — The following amendment in rule 3 (a) of Chhattisgarh Forest Services (Combined) Examination Rules 2014, namely :-

AMENDMENT

In this rules,-

The following instead of the Rule (3) (a) shall be substituted, namely :-

“(3)(a) First stage (written examination) shall consist of Two papers of Objective type, in which the first paper shall relate to General Studies, Language (Hindi English and Chhattisgarhi), IQ Test, Analytical Skills and Test of Reasoning, and Second paper to Science, Technology, Environment, Agriculture Science and Forestry Science. The second stage shall consist of Interview.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
JAISING MHASKEY, Secretary.